



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

25 भाद्र 1937 (श०)  
(सं० पटना 1067) पटना, बुधवार, 16 सितम्बर 2015

---

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

4 सितम्बर 2015

सं० 15/ख०-25-01/2012-563(15)/स्वा०—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-68 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में Adjudicating Officer (न्याय निर्णायक पदाधिकारी) को अधिसूचित करने का प्रावधान है एवं Adjudicating Officer की अर्हता उक्त धारा में निर्धारित है।

अतएव, साधारण खण्ड अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित खाद्य सुरक्षा और मानक-2006 (अधिनियम संख्या-34 सन् 2006) की धारा-68 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या-657(15) दिनांक 08.05.2012 से 36 जिलों के अपर समाहर्ता को पदनाम से अधिसूचित किया जा चुका है। शेष दो जिले औरंगाबाद एवं सुपौल के अपर समाहर्ता को भी पदनाम से अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से उक्त जिला के लिए Adjudicating Officer (न्याय निर्णायक पदाधिकारी) के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1067-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>